



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 876) पटना, बुधवार, 22 अक्टूबर 2014

सं0 3ए-2-वे0पु0-11/2014—9727-वि0
वित्त विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर 2014

विषय:—सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत बिहार सूचना सेवा संवर्ग के राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतनमान स्वीकृति के संबंध में ।

वेतन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों के लिए संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. इस संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा बिहार राज्य सूचना सेवा के लिए निम्नलिखित वेतनमान की स्वीकृति दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से की गयी है:-

क्र0 सं0	पदनाम	दिनांक 01/01/2006 से स्वीकृत वेतनमान
1.	सहायक निदेशक/जिला जन-संपर्क पदाधिकारी	पी0बी0-2+4800/-
2.	उप निदेशक	पी0बी0-3+6600/-
3.	संयुक्त निदेशक	पी0बी0-3+7600/-

3. वेतन समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गयी थी कि जिन सेवा/संवर्गों का पद सोपान उनकी सेवा शर्त नियमावली में स्पष्ट विहित नहीं है, उनके मामले में संबंधित विभाग वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर ले ।

4. अधिसूचना सं0 30, दिनांक 15/03/2012 के द्वारा बिहार सूचना सेवा नियमावली, 2012 अधिसूचित हुई । इसके द्वारा सूचना सेवा के मूल कोटि एवं उपर के पदों को स्पष्ट रूप से विहित किया गया है । ऐसी परिस्थिति में वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में अन्य राज्य सेवाओं के समान अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मूल कोटि के लिए दिनांक 01/01/2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का संशोधन विचाराधीन था ।

5. सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सूचना सेवा के मूल कोटि के पद के लिए संकल्प सं० 630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

पदनाम	पूर्व स्वीकृत वेतनमान	संशोधित वेतनमान
सहायक निदेशक/जिला जन-संपर्क पदाधिकारी	पी०बी०-2+4800/-	पी०बी०-2+4800/- चार वर्ष बाद पी०बी०-3+5400/-

6. अन्य प्रोन्नति के पद का वेतनमान यथावत् रहेगा । संकल्प सं० 630, दिनांक 21/01/2010 के प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जायेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रभात शंकर,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 876-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>